



धारा के अंतर्गत एवं समस्त शहर के
 में अतिरिक्त करने पर भी समस्त
 सुदृष्टि के अनुसार है। समस्त अतिरिक्त
 को छोड़ने पर यह सत्य है। अतः अतिरिक्त
 मानविकी के अनुसार ही निर्माण करें, अति-
 रूपण न करें।
 Encroachments on front, Rear & Side
 setbacks invite heavy penalties. Encro-
 chments could be demolished also Please
 avoid encroachments construct building
 as per Sanctioned plan.

प्रश्न ५६६४



प्रश्न-1-यस भाषाविद् ब्रह्मचरि की चिन्ता से अधिक
तक हो दर्श की अध्याय तक विषय रहेक वद्यते पदोधार
का पदो की अधिकार उपलब्ध हो अथवा वक्षी पूर्ण
भावित कदा लिए हो । पदो की अधिकार उपलब्ध
पूर्णभावित न होने की दृष्टि मे भाषाविद् की वैधता
पदो की वैधता सिद्धि तक ही समझी जाएगी ।

CORE AREA DIAGRAM AT TYPICAL FLOORS

(2) आर्यटी की अधिमोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय विकास प्रबंधक (आवास) से नियम अनुसार सहाय धृष्टिपत्र प्राप्तकर प्रस्तुत करना होगा



SCHEDULE OF OPENINGS			
NAME	SIZE	CY	UNITS
D	720x2100		2100
D1	1005x2400		2400
D2	960x2100		2100
D3	1020x2100		2100
D4	1500x2100		2100
W	4500x1400	1000	2400
W1	5000x1400	1000	2400
W2	600x1400	1000	2400
W3	735x1400	1000	2400
W4	5000x1400	1000	2400
W5	560x1400	1000	2400
W6	2500x1400	1000	2400
DW	1195x2400	1000	2400
G	3500x2400		2400
G1	1950x2400		2400



AREA DETAILS OF TOWER-Y3 (Studio Apart)						
AREA DETAILS OF S-A-1						
1	0.900	X	3.790	=	3.564	Sq. M
2	4.547	X	5.260	=	23.917	Sq. M
3	0.943	X	4.510	=	2.445	Sq. M
TOTAL					29.750	Sq. M
NON FAR AREA DETAILS						
BALCONY						
B1	1.200	X	1.451	=	1.741	Sq. M
15% EXTRA FAR AREA DETAILS						
CLUB BOARD						
1	1	X	0.690	X	1.890	= 1.098 Sq. M
AREA DETAILS OF S-A-2						
1	3.525	X	1.500	=	5.283	Sq. M
2	1.435	X	0.640	=	0.918	Sq. M
3	4.855	X	3.760	=	18.255	Sq. M
4	0.741	X	2.035	=	1.508	Sq. M
TOTAL					25.958	Sq. M
NON FAR AREA DETAILS						
BALCONY						
B1	1.200	X	1.425	=	1.710	Sq. M
15% EXTRA FAR AREA DETAILS						
CLUB BOARD						
1	1	X	0.500	X	1.890	= 1.080 Sq. M
CORE AREA DETAILS AT TYPICAL FLOOR						
1	3.885	X	5.935	=	22.938	Sq. M
2	17.809	X	1.530	=	28.709	Sq. M
3	17.860	X	1.530	=	28.709	Sq. M
4	2	X	0.162	X	0.828	= 0.267 Sq. M
5	2	X	0.608	X	1.080	= 2.283 Sq. M
6	2	X	0.824	X	1.787	= 1.472 Sq. M
7	3.249	X	1.948	=	6.312	Sq. M
8	4.590	X	3.230	=	15.794	Sq. M
TOTAL					102.565	Sq. M
DEDUCTIONS						
L1	2.100	X	2.460	=	5.163	Sq. M
L2	2.100	X	3.660	=	6.300	Sq. M
LI 1	6.218	X	1.500	=	6.327	Sq. M
C1	2.100	X	0.370	=	0.777	Sq. M
TOTAL					18.44	Sq. M
CORE AREA AT TYPICAL FL						
					102.565	18.444
						64.124
15% EXTRA FAR AREA DETAILS						
FIRE ESCAPE STAIRCASE						
F1	3.230	X	5.360	=	17.313	Sq. M
LIFT LOBBY						
LI 1	6.218	X	1.500	=	6.327	Sq. M

सब प्रेस
के माध्यम से 50.00
भी उपाय के लिए सहायता मिलेगी

प्रथम प्रश्नोत्तर, बीकानेर
 अनुमति
 निर्दिष्ट-आवधिक, सामान्य एवं पदार्थ
 प्रत्येक की शर्तों की पूर्तिना फलन
 करने हेतु कार्य है।
 संकेत
 क्या संकेत, बीकानेर प्र. प्र. बीकानेर.
 संकेत
 संकेत
 प्रश्न
 (प्रथम प्रश्न)

Map for proposed Building is as per Bye
Laws. Submitted for approval please.

Pl. Asst. Asst. Arch. Architect



Opulent Infra Developers Private Limited
Authorised Signatory

NISHIT GUPTA
ARCHITECT
Regd. No:- CA/91/13697

OWNER'S SIGN: _____

Nishit Gupta
ARCHITECT'S SIGN

PROJECT:	
----------	--

PROPOSED GROUP HOUSING PROJECT FOR
OFULENT INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
ON PLOT NO. GH-01/B, SECTOR-168, NOIDA (UP)

DRAWING TITLE:

TYPICAL FLOOR PLAN & AREA CHART
TOWER- T3 (STUDIO APARTMENTS)

SCALE : 1:100

DATE: _____

Dr. No. 17